

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अगस्त 2022

### प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस खेल में जेरेमी लालरिनुंगा ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता?

- A) बैडमिंटन
- B) शूटिंग
- C) टेनिस
- D) वेटलिफ्टिंग

**सही उत्तर: D**

भारोत्तोलक जेरेमी लालरिनुंगा ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 67 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

### प्रश्न -2

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निम्नलिखित में से किस सहकारी शहरी बैंक को उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध प्राप्त हुए थे?

- A) करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
- B) जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक
- C) दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक
- D) उपरोक्त सभी

**सही उत्तर: D**

रिजर्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक, बासमतनगर, करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सोलापुर, दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, विजयवाड़ा पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अगस्त 2022

### प्रश्न -3

अपने कार्बन उत्सर्जन को 42% तक कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के साथ भागीदारी की है?

- A) टाटा स्टील
- B) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
- C) JSW स्टील
- D) हिंडाल्को इंडस्ट्रीज

**सही उत्तर: C**

JSW स्टील ने घोषणा की है कि उसने आधार वर्ष 2005 की तुलना में 2029-30 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 42 प्रतिशत तक कम करने के अपने कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अमेरिका स्थित बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के साथ भागीदारी की है।

### प्रश्न -4

LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने कंपनी के बोर्ड में \_\_\_\_\_ को अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

- A) इशराक अली खान
- B) राजेश कुमार
- C) रवि किशन टक्कर
- D) सोम शंकर प्रसाद

**सही उत्तर: C**

LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) के निदेशक मंडल ने यूको बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO रवि किशन टक्कर को कंपनी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अगस्त 2022

### प्रश्न -5

"ऑपरेशन विजय 1999" में भारतीय सशस्त्र बलों (IAF) की जीत का जश्न मनाने के लिए, कारगिल सेक्टर में द्रास में प्वाइंट 5140 का नाम बदलकर \_\_\_\_\_ रखा गया था।

- A) विजय हिल
- B) विकट्री हिल
- C) गन हिल
- D) फायर हिल

#### सही उत्तर: C

भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को मनाने और कारगिल युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन विजय' में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए, कारगिल सेक्टर में द्रास में प्वाइंट 5140 का नाम बदलकर 'गन हिल' कर दिया गया था।

### प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ, बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 'बॉबकार्ड' नाम से एक क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप) लॉन्च किया है?

- A) एक्सचेंजर
- B) IBM
- C) इंफोसिस
- D) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

#### सही उत्तर: B

IBM के सहयोग से डिजाइन किए गए बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने अपने क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग मोबाइल ऐप 'बॉबकार्ड' को लॉन्च करने की घोषणा की है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अगस्त 2022

### प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किसने 'द जर्नी ऑफ ए नेशन: 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी: री-इमर्ज, रीइन्वेस्ट, री-एंगेज' नामक पुस्तक लिखी है?

- A) अहमद पटेल
- B) मनमोहन सिंह
- C) नटवर सिंह
- D) संजय बारू

**सही उत्तर: D**

संजय बारू ने 'द जर्नी ऑफ ए नेशन: 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी: री-इमर्ज, रीइन्वेस्ट, री-एंगेज' नामक एक नई पुस्तक लिखी है।

### प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किसने "द लाइट वी कैरी: ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स" नामक पुस्तक लिखी है?

- A) बेटी फोर्ड
- B) क्रेग रॉबिन्सन
- C) मालिया ओबामा
- D) मिशेल ओबामा

**सही उत्तर: D**

अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने "द लाइट वी कैरी: ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स" नामक एक नई पुस्तक लिखी है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अगस्त 2022

### प्रश्न -9

मेक इन ओडिशा (MIO) कॉन्क्लेव 2022 के लिए किस संगठन ने हाल ही में ओडिशा के औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम (IPICOL) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) ASSOCHAM
- B) FICCI
- C) ICT अकादमी
- D) NASSCOM

**सही उत्तर: B**

ओडिशा के औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम (IPICOL) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 के लिए FICCI को राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

### प्रश्न -10

किस तारीख को पृथ्वी पर सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है?

- A) 30 जुलाई
- B) 29 जुलाई
- C) 28 जुलाई
- D) 27 जुलाई

**सही उत्तर: B**

29 जुलाई को पृथ्वी ने 24 घंटे से 1.59 मिलीसेकंड कम समय में अपना चक्कर पूरा किया।